

प्रभागत किया जाता है कि इस दस्ती पुस्तक
में मरीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक स.
पन्ने हैं यह मापी पुस्त क्षी...अन्तिम...
सहायक अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल.....२१४८/८/८...को निर्गत
किया जाता है।

[Signature]
21/8/81

कार्यपालक अधिकारी

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल, मध्यवनी

C.M.

उत्तराखण्ड

Sch. XLV—Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2699

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of the work-
 Situation of work-
 Agency by which work is executed-
 Date of measurement-
 No. and date of agreement-
(These four lines should be repeated at the commencement of
the measurements relating to each work)

01

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Record measurement</u>						
<u>Ist. on E/C Bill.</u>						
<u>N.W:- TOS - Represent total to Revo-</u>						
<u>Sat torba. mtr mtr SY (ss)</u>						
<u>NIA:- Sri Abinash Anand.</u>						
<u>Agt. NO:- 179 SBD/ 20 20-21.</u>						
<u>Date of start - 9.3.2021.</u>						
<u>Date of completion - 1.12.2021.</u>						
<u>① Setting out pillars -</u>						
<u>- do - E/I.</u>						

— 5 Nos.

② clearing or grubbing

Rd. Jomial - do - B/T.

$$8 \times 30.00 \times 3.50 = 840.00 \text{ m}^2$$

$$5 \times 30.00 \times 3.50 = 525.00 \text{ m}^2$$

$$9 \times 30.00 \times 3.50 = 945.00 \text{ m}^2$$

$$1 \times 20.00 \times 3.50 = 70.00 \text{ m}^2$$

$$2380.00 \text{ m}^2$$

$$\div 10,000 = 0.24 \text{ Hec.}$$

③ E/W. in exch. in form

- do - do - E/I.

$$\text{H.W:- } 2 \times 2 \times 6.45 \times 1.40 \times 1.50 = 54.18 \text{ m}^3$$

$$\text{Below pipe:- } 2 \times 4.85 \times 1.53 \times 0.363 = 5.39 \text{ m}^3$$

$$59.57 \text{ m}^3$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		67.48 m ³	@ 6391.32/m ³		431286/-
6. Providing and laying N.P. w.p.... of clt. city wide TMID P-(16)					
		15.00 m ³	@ 3748.99/m ³		56215/-
7. Construction of embankment.... of clt. city wide TMID P-(16)					
	(1)	531.92 m ³	@ 154.07/m ³		81953/-
	(2)	132.98 m ³	@ 190.36/m ³		25214/-
8. Construction of G.S.O.g.I .. of clt. city wide TMID P-(16)					
		550.40 m ³	@ 2881.33/m ³		1582032/-
9. Providing, laying w.D.M grn II of clt. city wide TMID P-(16), (18)					

$$168.76 \text{ m}^3 + 23.29 = 192.05 \text{ m}^3$$

$192.05 \text{ m}^3 @ \$36.00/\text{m}^3 - \6900.44

10. Providing financing board . . . often
city wide TRAB P- (16)

03 NO. C. 10836.68 / NO - 32510 =

11. Providing & applying prime coat...
... of C.I.C. copolymer. The D.P. - (19)

2562.29 m² @ 43.34/m² = 111050/-

12. Providing, applying lacquer coat.....

affiliates wide TRAIL P-15

2562.29 m² @ 14.83/m²

of the city wide	TAD P-(19)
2562.29 m ²	@ 29.91/m ² = 56347.2

Sch XLV Form No. 134

22

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					<u>BF3709610 1/2</u>
					<u>Add 13x0.17 + 482.249 1/2</u>
					<u>+ 14x0.000 Add 0.00 + 544.68 1/2</u>
					<u>42,46,329 1/2</u>
					<u>14x below as per agreement (-) 5,944.86 1/2</u>
					<u>36,51,841 1/2</u>
					<u>P. Payment. (-) 28,701.25 1/2</u>
					<u>781.706 1/2</u>
					<u>Cash</u>
					<u>07th Nov 23</u>
					<u>SC.</u>